

winsome

Textile Industries Ltd.

SCO # 191-192, Sector 34-A

Chandigarh - 160 022 INDIA

Tel. : +91-172-2603966, 4619000

Fax : +91- 172 - 4646760

CIN : L17115NP1980PLC005647

E-mail : wtil@winsometextile.com

Website : www.winsometextile.com



Ref. No. WTIL/AGM/2023-2024:0021

Date: 24th August, 2023

BSE Limited
Corporate Relationship Deptt.
Dalal Street, P.J. Towers,
Mumbai-400001.
Scrip Code: 514470

Subject: Newspaper Advertisement

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with circular no. CIR/CFD/CMD/4/2015, dated 09th September, 2015, please find enclosed herewith newspapers clippings regarding intimation of Annual General Meeting (AGM) and book closure as published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition).

You are requested to take the same on your record.

Thanking you

Sincerely yours

For Winsome Textile Industries Limited



W
Videshwar Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
ACS-17201

Encls: - a/a



Union Bank of India Stressed Asset Management Branch, SCO 137-138, Sector 8-C, Chandigarh -160008

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer for Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, Chandigarh, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) & 13(12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as briefed under calling upon the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) having failed to repay the Amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property/ies described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under section 13(4) of said Act read with Rule 8 & 9 of the Security Interest Enforcement Rules on the date mentioned there against.

The Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, Chandigarh, for the amount and interest thereon.

The Borrower(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Name of Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of the Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
Borrower : Shri Shambhu Kumar S/o Meghu Sah and Smt. Cheena Devi W/o Shambhu Kumar.	30% Share of Free Hold Residential House No. 3205 (First Floor), Sector 27-D, Chandigarh, R.P. No. 10510, measuring 256.667 Sq. Yards. Owned by Sh. Shambhu Kumar S/o Meghu Sah registered at Serial no. 4981, Book No. 1, Volume No. 219, Page No. 86 dated 02.02.2015 in the office of Sub Registrar, Chandigarh. Bounded : On the North by Dividing Road Sector 19/27, On the South by Sector Road, On the East by House No. 3206, On the West by House No. 3204.	02.01.2019	22.08.2023	Rs. 63,21,542.01 Plus interest and other charges thereon

Note : Possession Notice issued u/s 13(4) of the SARFAESIA Act, 2002 in the account of Shri Shambhu Kumar S/o Meghu Sah & Smt. Cheena Devi W/o Shambhu Kumar dated 12.04.2022 stands withdrawn.

Date: 23.08.2023 Place: Chandigarh Authorised Officer

PUNJAB & SIND BANK BRANCH OFFICE : BATTI WALA CHOWK, OLD BUS STAND, KOTKAPURA

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab & Sind Bank, Branch Office : Batti Wala Chowk, Old Bus Stand, Kotkapura. Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of power conferred under section 13(12) read with security interest (Enforcement) Rules, 2002. Issued a demand notice under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon the following borrower(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in notice within 60 days of the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here below in Exercise of the power conferred on him/her under section 13(4) of said ACT read with rule 8 of the said rules.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and dealing with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, Branch Office : Batti Wala Chowk, Old Bus Stand, Kotkapura, for an amount mentioned here in below, besides interest and other charges/expenses against calling account.

The borrower(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Name of the Borrower(s)/Guarantor(s)	Description of Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount as per Demand Notice
Borrowers:- (I) Tilak Raj S/o Janji Ram S/o Jivan Dass R/o Gugga Street, Near Radha Krishan Mander, Surgapuri, Factory Road, Kotkapura, Tehsil Kotkapura Distt. Faridkot (II) Shubham Kumar S/o Tilak Raj S/o Janji Ram S/o Jivan Dass R/o Gugga Street, Near Radha Krishan Mander, Surgapuri, Factory Road, Kotkapura Tehsil Kotkapura Distt. Faridkot.	Property Measuring 80 Sq. Yards with Municipal N. o. B-VIII/R Situated in Gugga Street, Near Radha Krishan Mander, Surgapuri, Factory Road, Kotkapura, Title Deed No.1147, Bahi No.1, Zild No.1149, Page No.71-76, Registered in the office of Sub-Registrar, Kotkapura on 09.08.2006 for a Consideration of Rs. 1,05,000.00 Executed and registered by Kalu Ram S/o Lal Chand S/o Badri Dass R/o Surgapuri, Kotkapura Tehsil Kotkapura Distt. Faridkot in Favour of Tilak Raj S/o Janji Ram S/o Jivan Dass R/o Gugga Street, Near Radha Krishan Mander, Surgapuri, Factory Road, Kotkapura Tehsil Kotkapura Distt. Faridkot. North: Janji Ram 33', South: Mamata Rani 33', East: Passage 21'10", West: Pardeep Kumar etc. 2'10"	30.05.2023	23.08.2023	Rs. 9,31,675.07

Date: 23.08.2023 Place: Kotkapura Authorised Officer

Union Bank of India Stressed Asset Management Branch, SCO 137-138, Sector 8 C, Chandigarh Ph. No. 0172-2721096, Mob No. 88504-78730

E-AUCTION SALE NOTICE

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular by the Authorized Officer, that the under mentioned property mortgaged to Union Bank of India, taken possession under the provision of Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, will be sold by E-Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc, as detailed below.

The property is being sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities.

The under mentioned property/ies will be sold by "Online E-Auction through website www.mstcecommerce.com For Sr. No. 01 to 04 from 26.09.2023 & Sr. No. 05 to 06 from 12.09.2023 upto 11.00 AM to 04.00 PM.

*Minimum bid incremental value for each bid is Rs. 10,000/- or in multiple thereof.,

*Any encumbrances over the property/ies is not known to the Bank/Secured Creditor.

Sr. No.	Name of the Account	Name of the Borrower/Mortgagor and Guarantor	Demand Notice Date & Amount Claimed	Reserve Price EMD
1.	Malik Automobiles	M/s Malik Automobiles (Prop Ms. Vijender Malik W/o Santokh Singh), Address 1- Shop No. 2, Gandhi Service Station, Manimajra, Chandigarh - 160101. Address 2 - Plot No. 154, Industrial Area, Phase 2, Panchkula, Haryana - 134113. Ms. Vijender Malik W/o Santokh Singh, Address 1 - House No. 58, Mahadev Colony, Surajpur, Panchkula, Haryana - 134107. Address 2 - House No. 217, Sector 17, Panchkula, Haryana - 134107.	20.04.2021 Rs. 27,42,335.50	Rs. 56,10,000/- Rs. 5,61,000/-
2.	Smt. Manisha	Applicant : Smt. Manisha W/o Sh. Pravin Kumar, Flat No. 427, 3rd Floor, Built MS Enclave, Village Dhakoli MC Zirakpur Tehsil Derabasi, SAS Nagar Punjab. Co Applicant : Sh. Pravin Kumar S/o Norang Kumar, Flat No. 427, 3rd Floor, Built MS Enclave, Village Dhakoli MC Zirakpur Tehsil Derabasi, SAS Nagar Punjab.	06.09.2022 Rs. 21,18,125.27	Rs. 20,50,000/- Rs. 2,05,000/-
3.	M/s Bachhal Poultry Farm	Borrower : M/s Bachhal Poultry Farm Through its Prop. Smt. Jaswant Kaur W/o Sh. Harbans Singh, House No. 40, Mahesh Nagar, Ambala Cantt., Haryana 133001. Guarantor : Vineet Kaushal S/o Sh. Sat Pal Kaushal, House No. 77, Shiv Partap Nagar, Near Shiv Mandir, Ambala Cantt., Haryana-133001. 2. Jasbir Singh S/o Sh Arjun Singh, House No. 16B, Shyam Nagar, Ambala Cantt. Haryana-133001.	31.01.2020 Rs. 26,63,893.51	Rs. 50,50,000/- Rs. 5,05,000/-
4.	M/s Aggarwal Provision Store	Borrower : M/s Aggarwal Provision Store through Prop. Mr. Parmod Kumar Aggarwal, Shop No. 4.5, Milap Nagar, Opp. Sethi Market, Ambala City. 2. Mr. Parmod Kumar Aggarwal, Shop No. 4.5, Milap Nagar, Opp. Sethi Market, Ambala City. 3. Mr. Hari Krishan, Shop No. 4.5, Milap Nagar, Opp. Sethi Market, Ambala City.	19.09.2022 Rs. 23,45,485.55	Rs. 45,00,000/- Rs. 4,50,000/-
5.	M/s Good Luck Foods	Borrower : 1. M/s Good Luck Foods, Vill. Rani Majra, Hanera Road, Lalru, Tehsil Dera Bassi Punjab. 2. Guarantor/Mortgagor 1 Mr. Ajay Narayan Goyal, Address : 1. H. No. 31, Sector-21 Panchkula, Pin 134112. Address : 2. Flat No. 702, Block-A, Royal Mansion, Peer Muchalla, Zirakpur, SAS Nagar, Punjab-140603. 3. Guarantor/Mortgagor 2 : M/s. Sangeeta Goyal, Address : H. No. 31, Sector-21 Panchkula, Pin 134112. Address : 2. Flat No. 702, Block-A, Royal Mansion, Peer Muchalla, Zirakpur, SAS Nagar, Punjab-140603.	23.04.2021 Rs. 1,91,74,834.23	Rs. 1,84,50,000/- Rs. 18,45,000/-
6.	Rajni Sharma	Borrower : 1. Rajni Sharma D/o Shan Lal, R/o House No. 4952/53 Palleddar Mohalla Ambala Cantt. Haryana 133001 Pin Code: 133001. Co-Borrower : 1. Raj Kumar S/o Dilbag Rai, House No. 18 Gobind Nagar Ambala Cantt Haryana, Pin Code 133001. 2. Monika Sharma W/o Manoj Kumar, House No. 4952/53 Palleddar Mohalla Ambala Cantt. Pin Code 133001. Haryana. 3. Manoj Kumar S/o Dilbag Rai, House No. 4952/53 Palleddar Mohalla Ambala Cantt. Haryana, Pin Code 133001	07.03.2022 Rs. 77,83,165.87/-	Rs. 2,35,00,000/- Rs. 23,50,000/-

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक

... the name you can BANK upon! ... भरोसे का प्रतीक !

Branch Office :- Bahadurgarh (011110) Mobile: 8130554343, E-Mail:- bo011110@pnb.co.in, cs8307@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)] (For Immovable property)

Whereas the authorized officer of Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice on the dates mentioned against each account and stated herein after calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account.

The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

The borrowers/guarantor/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon, given below:

Name of the Account (Borrower) & Branch/Guarantor	Description of property mortgaged	Date of demand notice	Date of possession	Amount O/s as per Demand Notice
Branch Office :- Bahadurgarh (011110) M/S Dhanpati Education Society, MSM Public School, Village Bamnoli Tehsil Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana. 2. Smt. Kavita W/o Sunil Kumar, Village Bamnoli, Tehsil Bahadurgarh. 3. Smt Sarla Devi W/o Om Singh, 225, Subhash Nagar, Rohtak. 4. Shri Vikas Kumar S/o Sh. Dharampal, 872/28, Near Bharat Singh Trust, Bharat Colony, Rohtak. 5. Shri Joginder S/o Dharam Pal MSM Public School, Village Bamnoli Tehsil Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana. 6. Shri Jagroop S/o Shri Mukhtiyar Singh, 502, Sector-23, Sonepat. 7. Smt. Poonam W/o Joginder Singh, House No. 1681, Sector-6, Bahadurgarh. 8. Sh. Joginder Chhillar S/o Mukhtiyar Singh, MSM Public School, Village Bamnoli Tehsil Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana. 9. Sh. Joginder Chhillar S/o Mukhtiyar Singh, House No. 1681, Sector-6, Near BSNL Tower, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana.	(Property-1) Equitable mortgage of property measuring 10 kanal 7.19 marla at khawat no. 112, khata no. 121, must killa no. 20/14/2/2(3-6), 16(8-0), 17/1(4-8), 24/2(2-14), 25(8-0), 20/14/1/2(2-5) 15(8-0) 21/11/1(7-11) 21/12/7(12) 13/10(14) 21/12/17(11) 22(7-4) 23(7-4) 30/11/1(2-13) 21/18(8-0) 19(7-12) 20(8-0), 30/2/1(1-5) 20/4/2/2(5-2) 31/4/1/2(0-11) 5/12(1-3) kitte 22 rakka 119 kanal 4 marlae 1/12 part 9 kanal 17.16 marlae and khawat no. 113 khata no. 128, killa no. 20/7/1(6-6) kitte 1 rakka 6 kanal 6 marlae 1/8 part 103 marlae per jamabandi 2011-12 situated within the revenue estate of village Mukandpur, District Jhajjar in the name of Joginder S/o Mukhtiyar Singh having Sale Deed No. 5906 dated 27/10/2016 and Property measuring 1 kanal 0 marlae situated at khawat no. 134/2, killa no. 20/16/2/2/1(3-0), 25/1(0-4) vide deed no. 165 dated 05.04.2018 and lease deed no 5440 dated 08.10.2018 in the dhanpati education society.(Total area 11 kanal 8 marla)	09.02.2023	22.08.2023	Rs. 3,03,55,323.79 /- further interest and charges w.e.f.01.02.2023.
	(Property-2) Equitable mortgage of plot measuring (150+150 sq. yards) 300 sq. yards situated at village Bamnoli in Khawat no. 212/191, killa no. 26/1/2(0-5) in the name of Joginder Singh s/o Mukhtiyar Singh (purchased vide Sale Deed No. 9033 dated 10.02.2009 & 7978 dated 27.12.2007)			

Note :- This possession notice is in suppression to earlier possession notice dated 18.05.2023 and 01.08.2023 as same are withdrawn due to technical reason.

Dated: 22.08.2023 Place: Rohtak Authorised Officer, Punjab National Bank

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Morepen Laboratories Limited

CIN: L24231HP1984PLC006028

Regd. Office: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh - 173205

Tel No. : +91-01795-276201-03; Fax No. : +91-01795-276204

Website: www.morepen.com; E-mail id: investors@morepen.com

INFORMATION RELATING TO 38th ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to the general circular no. 10/2022 dated 28th December 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the companies are allowed to hold Annual General Meeting through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), accordingly, the 38th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Morepen Laboratories Limited ('the company') is scheduled to be held on Thursday, 28th September 2023 at 1.00 p.m., through VC/OAVM. The services of VC/OAVM will be provided by National Securities Depository Limited ('NSDL') at said AGM, so as to allow members of the company to participate in the AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ('Listing Regulations') and various guidelines, circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, SEBI, from time to time, to transact the businesses as set out in the notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM, shortly.

Further, in compliance with the applicable provisions of the Act, circulars and Listing Regulations, the notice of the AGM along with explanatory statements, Annual Report for the financial year 2022-23, login details for joining the meeting through VC/OAVM and e-voting will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the company/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') Depositories and vote on the resolution(s) set out in the notice of AGM through e-Voting. The services of e-Voting will also be provided by NSDL. The requirement of sending hard copy of the Annual Report has been dispensed with unless member asked/requested for the hard copy.

The members may note that the notice of the AGM along with explanatory statements and Annual Report for the financial year 2022-23, will available on the website of the company at www.morepen.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The aforesaid document will also be available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM, shall be reckoned for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act. The detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM and e-Voting will be given in the notice of the AGM.

Manner of registration/ updation of e-mail addresses along with other relevant details:

The members whose e-mail id, is not registered/ updated with the company/ RTA/ depositories, please follow the below instructions for registration of email id. on or before **Thursday, 31st August, 2023:**

Demat Holding	Send a request to RTA of the company i.e., MAS Services Limited at T-34, 2 nd Floor, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 029 in duly filled Form ISR-1, which can be downloaded from the website of the company at www.morepen.com under "Investors" tab as well as RTA's website i.e., www.masserv.com under 'download' tab. You can also send the Form ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com
Physical Holding	Please contact your depository participant ('DP') and register your e-mail address as per the manner prescribed by them.

The members are requested to read all the 'Notes' set out in the notice of the AGM, in particular, instructions for members to attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through remote e-voting and e-voting during the AGM.

In case of any query or issue regarding attending the AGM through VC/OAVM or e-Voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.co.in/ 022 - 48867000 / 022 - 24997000 or to the RTA of the company, Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, MAS Services Limited at info@masserv.com / 011- 26387281/ 82/ 83 or 011-41320335.

For Morepen Laboratories Limited

Sushil Suri
Date: 23rd August, 2023 (Chairman & Managing Director)
Place: Gurugram, Haryana DIN: 00012028

WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 1, Industrial Area, Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205
Ph: 01795-244045, Fax No. 01795-244287, CIN: L17115HP1980PLC005647
website: www.winsometextile.com, e-mail: cswwill@winsometextile.com

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of Companies Act 2013 & rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 14th September, 2023 to 21st September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 42nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, the 21st September, 2023 at 10.00 A.M. at registered office of Company i.e. 1, Industrial Area, Baddi, Distt. Solan (H.P.) 173205.

Further, in terms of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has fixed Thursday, 14th September, 2023, as Cut-off date to record the entitlement of Members to cast their votes electronically (remote e-voting) as well as voting/ polling for all the businesses to be transacted at the ensuing 42nd Annual General Meeting of the Company.

For Winsome Textile Ind. Ltd.
Videshwar Sharma
Company Secretary
ACS - 17201

Date : 23.08.2023
Place : Chandigarh

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

DEMAND NOTICE

Under the Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules")

The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG INDIA CREDIT) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

Name of the Borrower(s)	Demand Notice Date / Amount	Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged
MAHINDER SINGH, BANTI MAHINDER, SONIA SHARMA, MAHINDER PAL NARESH KUMAR, Account No: 189420910717507	16/08/2023 Rs. 28,61,030/- As on 16.08.2023	KHEWAT NO 377 KHATAUNI NO 785, KHASRA NO 487, 1/3 SHARE I.e 11 MARLA VILLAGE AGONDH, TEHSIL & DISTT. KARNAL HARYANA -132024.

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: KARNAL Date: 24.08.2023 SD/-, Authorised Officer, SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

DEMAND NOTICE

Under the Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules")

The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG INDIA CREDIT) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

Name of the Borrower(s)	Demand Notice Date / Amount	Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged
KRISHAN KUMAR SANDEEP SATPAL KIRAN RATAN, Account No: 210920910790092	26/07/2023 Rs.2051713/- As on 05.07.2023	PROPERTY KHEWAT NO.62.KHATONI NO.80, KHASRA NO.1392 (1-0) ITS 3/4 SHARE I.e 10 MARLA SITUATED IN VILLAGE PAI TEHSIL PUNDRI AND DISTRICT KATHAL HARYANA.

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: KATHAL Date: 24.08.2023 SD/-, Authorised Officer, SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, CHANDIGARH, (DRT-2)

1st Floor, SCO 33-34-35, Sector 17-A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No. : OA/519/2019

Summons under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 19962

ANDHRA BANK VS M/S BEST SCISSORS

To,
1) M/s Best Scissors DW/S/O Shri Ashok Kumar. M/s Best Scissors, A Partnership Firm with Principal Place of Business at Shop No. 955, First Floor, Main Market, VPO Mattaur, Sector 70, SAS Nagar, Mohali, Punjab through its Partners Shri Ashok Kumar and Shri Vikrama Rohila. Sahibzada Ajit Singh Nagar/Mohali/Ajithgarh,Punjab.
2. Shri Ashok Kumar S/o Shri Hosila Parsad, R/o House No. LIG 3496, Sector 70, Mohali District SAS Nagar, Punjab.
3) Shri Vikrama Rohila Son of Shri Arjun Rohila, R/o House No. 616, New Mata Gudi Enclave, Mundi Kharar, Tehsil Kharar, District SAS Nagar, Punjab.

SUMMONS

Whereas OA/519/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 24.07.2023.

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 12,58,705.95 (application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted :-

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 16.11.2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 22.08.2023.

